

श्री जम्बू स्वामी पूजा Śrī Jambū Svāmī Pūjā

आर्यिका स्वस्तिभूषणमती जी
Āryikā svastibhūṣaṇamatī jī

(शंभू छन्द)

क्रम-अंत में मुक्ति पा कर, सिद्धालय जा वास किया।
वीर प्रभू के शिष्य अनुपम, वीर प्रभू पथ गमन किया ॥
दिव्य तेज आतम की शक्ति, तप से पाकर धन्य हुए।
जम्बू स्वामी को पूजे हम, पंचम काल में सिद्ध हुए ॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्र! अत्र अवतर! अवतर! संवौषट्! (आह्वाननं)

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्र! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! (स्थापनम्)

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्र! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

(Śambhū chanda)

Krama-anta mēm̄ mukti pā kara, sid'dhālaya jā vāsa kiyā |
Vīra prabhū kē śiṣya anupama, vīra prabhū patha gamana kiyā ||
Divya tēja ātama kī śakti, tapa sē pākara dhan'ya hu'ē |
Jambū svāmī kō pūjēm̄ hama, pañcama kāla mēm̄ sid'dha hu'ē ||

Ōm hrīm̄ śrī jambū svāmī jinēndra! Atra avatara! avatara! sanvaṣaṭ! (Āhvānanam)

Ōm hrīm̄ śrī jambū svāmī jinēndra! Atra tiṣṭha! tiṣṭha! tha! tha! (Sthāpanam)

Ōm hrīm̄ śrī jambū svāmī jinēndra! Atra mam sannihitō bhava bhava vaṣaṭ!(Sannidhikaranam)

प्यासी आतम की धरती है, हम तन की भूमि सींच रहे।
आतम का बाग तो सूखा है, तन से कर्मों को खींच रहे॥
जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा।

Pyāsī ātama kī dhraratī hai, hama tana kī bhūmi sīñca rahē |
Ātama kā bāga tō sūkhā hai, tana sē karmōm̄ kō khīñca rahē ||
Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Ōm hrīm̄ śrī jambū svāmī jinēndrāya janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam̄ nirvapāmīti svāhā |

समता से ज्यादा शीतलता, जग में न कहीं मिल पायेगी।
 कर के देखो बस एक बार, सच्ची शीतलता आयेगी॥
 जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
 अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय संसार-ताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा।

Samatā sē jyādā śītalatā, jaga mēm na kahīm mila pāyēgī |
Kara kē dēkhō basa ēka bāra, saccī śītalatā āyēgī ||
Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrī jambū svāmī jinēndrāya sansāra-tāpa-vināśanāya candanaṁ nirvapāmīti svāhā |

संसार में भागम-भाग मची, पर प्रभू हमारे स्थिर हैं।
 अक्षयपद से ही शांति मिले, जग का पद तो अस्थिर है॥
 जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
 अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा।

Sansāra mēm bhāgama-bhāga macī, para prabhū hamārē sthira hairm |

Akṣayapada sē hī śānti milē, jaga kā pada tō asthira hai ||
Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrī jambū svāmī jinēndrāya akṣayapada prāptāye akṣatān nirvapāmīti svāhā |

भोगों के भंवरे घूम रहे, जग में बस इनसे बचना है।
 हो काम बाण का नाश प्रभो! इसमें ना हमको फँसना है |
 जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
 अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है ॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा।

Bhōgōm kē bhanvarē ghūma rahē, jaga mēm basa inasē bacanā hai |

Ho kāma-bāṇa kā nāśa prabhō! Isamēm nā hamakō phaṁsanā hai |

Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrī jambū svāmī jinēndrāya kāmbāṇa vidhvansanāya puṣpaṁ nirvapāmīti svāhā |

नर पशु में ये ही अंतर है, नर संयम धर के महान बने।
 पशु बस खाने को जीता है, नर तप कर के भगवान बने॥
 जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
 अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है ॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय क्षुधा-रोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Nara paśu mēm yē hī antara hai, nara sanyama dhara kē mahāna banē |

Paśu basa khānē kō jītā hai, nara tapa kara kē bhagavāna banē ||

Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrī jambū svāmī jinēndrāya kṣudhā-rōga-vināśanāya naivēdyāṁ nirvapāmīti svāhā |

दर्शन तप त्याग की शक्ति से, हम ज्ञान ज्योति प्रज्वलायेंगे।
मुक्ति-पथ में कर उजियारा, मुक्ति को हम भी पायेंगे॥
जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा।

Darśana tapa tyāga kī śakti sē, hama jñāna jyōti prajvalāyēṅgē |
Mukti-patha mēm kara ujiyārā, mukti kō hama bhī pāyēṅgē ||
Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrī jambū svāmī jinēndrāya mōhāndhakāra vināśanāya dīpaṁ nirvapāmīti svāhā |

पापों की सरिता में जा जा कर, मैं डुबकी नित्य लगाता हूँ।
जब कर्म हमें परेशान करें, हे भगवान! तुम्हें बतलाता हूँ॥
जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा।

Pāpōm kī saritā mēm jā jā kara, mairṁ ḍubakī nitya lagātā hūṁ |
Jaba karma hamēm parēśāna karēm, hē bhagavān! Tumhēm batatā hūṁ! ||
Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrī jambū svāmī jinēndrāya aṣṭakarma dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā |

जग की जिस वस्तु को छोड़ा, प्रभु हम भी उसको छोड़ेंगे।
फल तुमने जो पाया जिनवर, उस फल से नाता जोड़ेंगे॥
जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है।
अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है॥

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय मोक्षफल प्राप्ताय फलं निर्वपामीति स्वाहा।

Jaga kī jina vastu kō chōṛā, prabhu hama bhī unakō chōṛēṅgē |
Phala tumanē jō pāyā jinavara, usa phala sē nātā jōṛēṅgē ||
Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrī jambū svāmī jinēndrāya mōkṣaphala prāptāye phalaṁ nirvapāmīti svāhā |

पापी मन को पावन करने, मैं गीत आपके गाता हूँ।
चरणों की पूजा से भगवन्, सच्ची शांति को पाता हूँ॥
जम्बू स्वामी ने आत्म-ज्ञान कर, आतम रूप निखारा है,
अब हम उनकी पूजा करते, और निज का रूप निहारा है ॥

ॐ ह्रीं श्रीजम्बू स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Pāpī mana kō pāvana karanē, mairṁ gīta āpakē gātā hūṁ |
Caraṇōm kī pūjā sē bhagavan, saccī śānti kō pātā hūṁ ||
Jambū svāmī nē ātma-jñāna kara, ātama rūpa nikhārā hai |
Aba hama unakī pūjā karatē, aura nija kā rūpa nihārā hai ||

Om hrīm śrījambū svāmī jinēndrāya anarghyapada prāptāye arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |

जयमाला

Jayamālā

(त्रिभंगी)

शुभ भाग्य हमारा, पाया द्वारा, तेरी पूजा भायी है।
 भावों की शुद्धि, सुख में वृद्धि, हे प्रभु! मेरी आयी है॥
 जिन धर्म की छाया, छूटे माया, मुक्ति पथ को देती है।
 जयमाला गाऊँ, शीश झुकाऊँ, संकट सब हर लेती है॥

(Tribhāngī)

Śubha bhāgya hamārā, pāyā dvārā, tērī pūjā bhāyī hai |
 Bhāvōm kī śud'dhi, sukha mēm vṛd'dhi, hē prabhu! mujhmem āyī hai ||
 Jina dharma kī chāyā, chūṭē māyā, mukti patha kō dētī hai |
 Jayamālā gā'ūṁ, śīśa jhukā'ūṁ, saṅkaṭa saba hara lētī hai ||

(शेरचाल)

इस जम्बू-द्वीप के जम्बू स्वामी को नमन!
 पूजा करूँ भक्ति करूँ इस भाव से भीना मन ॥
 सौभाग्यशाली आप हैं मुक्ति में जा बसे।
 हम तो प्रभो! संसार में कर्म-कीच में हैं धंसे॥
 तुम ब्रह्म स्वर्ग छोड़ सेठ के यहाँ जन्मे।
 खुशियाँ थी चारों ओर, सब हरषे थे मन में॥
 था राजगृह सुंदर नगर, थे जानते सभी।
 वैभव के थे भंडार उन्हें मानते थे सभी॥
 सुंदर-सा बालक देख खिलाते सभी वहाँ।
 नाना प्रकार क्रीड़ा से खुश होते सब वहाँ॥
 वे दोज चन्द्र के समान बड़े हुए थे।
 रूप देख चकित से सब खड़े हुए थे ॥
 इक दिन किये दरश सुधर्म स्वामी देव के।
 तब हो गया विराग कहा करूँ सेव मैं॥
 माता ने मोह में वचन बस एक ले लिया।
 पूरण करो ये आस जन्म है मैंने दिया॥
 माता की बात मान ली औ ब्याह किया था।
 पर चार रानियों ने भी मन न मोह लिया था॥
 संसार के सुखों की तरफ खूब रिझाया।
 इक चोर ने भी आके उन्हें सही बताया ॥
 संसार है असार जीव चले अकेला।

परिवार माता पिता भाई जगत का मेला॥
 वैराग्य ज्योति जगी न मंद पड़ी है।
 जग छोड़ दिया सामने दीक्षा की घड़ी है॥
 गुरु चरणों में जा करके मुनि दीक्षा को पाया।
 चारों ही ज्ञान ने उन्हीं में वास बनाया॥
 गौतम सुधर्म बाद केवल ज्ञान हो गया।
 उन दिव्य आत्मा से जग ये जग-मगा गया॥
 ॐंकार ध्वनि जो खिरी सब धन्य हो गये।
 आचार्य मुनि भक्त शरण में भी आ गये॥
 तत्त्व द्रव्य चेतना का उन्हें ज्ञान कराया।
 संसार को छोड़ो सभी को ये सत्य बताया ॥
 चारों ही रानियां औ मां भी चरण में आई।
 जब ज्ञान हुआ आ के वहां दीक्षा को पाई॥
 वे घोर-घोर तप करें है कर्म नशाना।
 सभी करम नाश कर मुक्ति को पाना ॥
 फिर जम्बू स्वामी जम्बू वन में ध्यान लगाए।
 आठों करम कर नाश दिव्य मुक्ति को पाए॥
 था पांचवां वो काल कोई रोक न पाया।
 पुरुषार्थ करें ध्यान करें ज्ञान ये पाया॥
 हमको भी सच्चे ज्ञान का वरदान दीजिए।
 हे जम्बू स्वामी! हो कल्याण ज्ञान दीजिए॥
 'स्वस्ति' ने करी भक्ति प्रभो ध्यान दीजिए।
 भक्तों को लेके शरण में कल्याण कीजिए ॥

(Śēracāla)

Isa jambū-dvīpa kē jambū svāmī kō namana |
 Pūjā karūṁ bhakti karūṁ ye bhav hain chamana ||
 Saubhāgyaśālī āpa hairṁ mukti mēm jā basē |
 Hama tō prabhō! Sansāra mēm karmom mēm hairṁ dhansē ||

Tuma brahma svarga chōṛa sēṭha kē yahāṁ janmē |
 Khuśiyāṁ thī cārōm ōra, saba haraṣē thē mana mēm ||
 Thā rājagrha sundara nagara, thē jānatē sabhī |
 Vaibhava kē thē bhaṇḍāra unhēm mānatē thē sabhī ||

Sundara-sā bālaka dēkha khilātē sabhī vahāṁ |
 Nānā prakāra krīṛā sē khuśa hōtē saba vahāṁ ||
 Vē dōja candra kē samāna barē hu'ē thē |
 Rūpa dēkha cakīta sē saba kharē hu'ē thē ||

Ika dina kiyē daraśa sudharma svāmī dēva kē |
 Taba hō gayā virāga, kahā! karūṁ sēva maim̐ ||
 Mātā nē mōha mēm vacana, basa ēka lē liyā |
 Pūraṇa karō yē āsa janma hai main nē diyā ||

Mātā kī bāta māna lī au byāha kiyā thā |
 Para cāra rāniyōṁ nē bhī mana na mōha liyā thā ||
 Sansāra kē sukhōṁ kī tarapha khūba rijhāyā |
 Ika cōra nē bhī ākē unhēm sahī batāyā ||

Sansāra hai asāra jīva calē akēlā |
 Parivāra mātā pitā bhāi jagata kā mēlā ||
 Vairāgya jyōti jagī na manda paṛī hai |
 Jaga chōṛa diyā sāmanē dīkṣā kī ghaṛī hai ||

Guru caraṇōṁ mēm jā karakē muni dīkṣā kō pāyā |
 Cārōṁ hī jñāna nē unhīm mēm vāsa banāyā ||
 Gautama sudharma bāda kēvala jñāna hō gayā |
 Una divya ātmā sē jaga yē jaga-magā gayā ||

Ōṅkāra dhvani jō khirī saba dhan'ya hō gayē |
 Ācārya muni bhakta caraṇa mēm bhī ā gayē ||
 Ve tattva dravya cētanā kā jñāna karāye |
 Sansāra kō chōṛō sabhī kō yē satya batāye ||

Cārōṁ hī rāniyāṁ au mām bhī caraṇa mēm āi |
 Jaba jñāna hu'ā ā kē vahām dīkṣā kō pāi ||
 Vē ghōra-ghōra tapa karēm, hai karma naśānā |
 ik din Sabhī karama nāśa kara mukti kō pānā ||

Phira jambū svāmī jambū vana mēm dhyāna lagā'ē |
 Āṭhōṁ karama kara nāśa divya mukti kō pā'ē ||
 Thā pāncavām vō kāla kōr'i rōka na pāyā |
 Puruṣārtha karēm dhyāna karēm jñāna yē pāyā ||

Hamakō bhī saccē jñāna kā varadāna dīji'ē |
 Hē jambū svāmī! Hō kalyāṇa! jñāna dīji'ē ||
 'Svasti' nē karī bhakti prabhō dhyāna dīji'ē |
 Bhaktōṁ kō lēkē śaraṇa mēm kalyāṇa kīji'ē ||

(दोहा)

मथुरा की पावन धरा, उसको शीश नवार्ये |
जम्बू स्वामी मोक्ष गये, चरणन अर्घ्य चढ़ार्ये ||

ॐ ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

(Dōhā)

Mathurā kī pāvana dharā, usakō śīśa navāyēm |
Jambū svāmī mōkṣa gayē, caraṇana arghya caṛhāyēm ||

Ōm hrīm śrī ambū svāmī jinēndrāya anarghyapada prāptayē
jayamālā-pūrṇārghyam nirvapāmiti svāhā |

धर्म गीत गाते रहें, दे दो ये वरदान |

जम्बू स्वामी चरण में, बारंबार प्रणाम ||

ॐ ह्रीं श्रीजम्बू स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमाला-पूर्णार्घ्य निर्वपामिति स्वाहा।

Dharma gīta gātē rahēm, dē dō yē varadāna |
Jambū svāmī caraṇa mēm, bārambāra praṇāma ||

॥पुष्पांजलिं क्षिपेत्॥

|| Puṣpāñjalim kṣipēt ||
